

प्रेषक,

डॉ० नरेन्द्र के० पन्त,
मुख्य विधि आलेख अधिकारी,
विधायी एवं संसदीय कार्य,
विधायी प्रकोष्ठ,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
विधायी एवं संसदीय कार्य,
उत्तराखण्ड शासन।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधायी प्रकोष्ठ)

देहरादून: दिनांक: 29 मार्च, 2014

विषय: वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए आवंटित बजट के सापेक्ष अवशेष अन्तिम बचत का समर्पण किया जाना।
महोदय,

उपरोक्त विषयक विधायी एवं संसदीय कार्य, विधायी प्रकोष्ठ के पत्रांक 05/XXXVI(3)/विधायी प्रकोष्ठ/2013-14 दिनांक 04 अप्रैल, 2013 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करे। उक्त पत्र के माध्यम से आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अनुदान संख्या-07, लेखाशीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेतर-090-सचिवालय-12-विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान के अन्तर्गत भिन्न भिन्न मानक मदों में कुल ₹33,05,000.00 मात्र (₹ तैंतीस लाख पाँच हजार मात्र) का आय-व्ययक अधोहस्ताक्षरी को आवंटित किया गया था।

02. उक्तवत् आवंटित कुल आय-व्ययक ₹33,05,000.00 मात्र (₹ तैंतीस लाख पाँच हजार मात्र) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में उक्त अनुदान एवं लेखाशीर्षक के अन्तर्गत भिन्न भिन्न मानक मदों में कुल ₹28,86,549.00 मात्र (₹ अट्ठाईस लाख छियासी हजार पाँच सौ उनचास मात्र) की धनराशि का आहरण किया गया है तथा ₹4,18,451.00 मात्र (₹ चार लाख अठारह हजार चार सौ इक्यावन मात्र) की राशि विभिन्न मदों में प्रस्तर 4 में उल्लिखित विवरणानुसार वर्तमान में शेष है।

03. चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपरोक्तानुसार उपलब्ध अन्तिम बचत की कुल धनराशि ₹4,18,451.00 मात्र (₹ चार लाख अठारह हजार चार सौ इक्यावन मात्र) को ऑन लाईन ईकोष की बेबसाइड के माध्यम से प्राप्त अलोटमेंट आई०डी० SH140300003 दिनांक 28 मार्च, 2014 (संलग्न) के अनुसार पुनर्ग्रहण हेतु आपको समर्पित की जाती है।

04. चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में विधायी प्रकोष्ठ के अन्तर्गत मानक मदवार वास्तविक व्यय एवं बचतों का विवरण संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने कष्ट करे।

संलग्न-यथोपरि


भवदीय,

(डॉ० नरेन्द्र के० पन्त)
मुख्य विधि आलेख अधिकारी।

संख्या -291/XXXVI(3)/विधायी प्रकोष्ठ/2013-14/दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
02. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
03. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, डालनवाला, देहरादून।
04. वित्त अनुभाग 05, उत्तराखण्ड शासन।
05. ✓ एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, शुभाष रोड, देहरादून।
06. विभागीय आदेश पुस्तिका।


(डॉ0 नरेन्द्र के0 पन्त)
मुख्य विधि आलेख अधिकारी।

बजट समर्पण वित्तीय वर्ष - 20132014
HOD Name - Chief Legal Drafting Officer (4664)

आवंटन पत्र संख्या - 291/XXXVI(3)/V.P./2013-14

अनुदान संख्या - 007

अलोटमेंट आई डी - SH140300003

आवंटन पत्र दिनांक - 28-Mar-2014

Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs


1: लेखा शीर्षक 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें 00 -
 090 - सचिवालय 12 - विधायी प्रकोष्ठ का अधिठान
 00 - विधायी प्रकोष्ठ

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में समर्पण	योग
01 - वेतन	800000	-112080	687920
03 - मद्रगाई भत्ता	650000	-44360	605640
04 - यात्रा व्यय	20000	-6606	13394
06 - अन्य भत्ते	250000	-75160	174840
08 - कार्यालय व्यय	25000	-9539	15461
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	20000	-14204	5796
12 - कार्यालय फर्निचर एवं उपकरण	10000	-10000	0
13 - टेलीफोन पर व्यय	15000	-8188	6812
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	125000	-1655	123345
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	1150000	-38245	1111755
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	5000	-3786	1214
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	110000	-4408	105592
42 - अन्य व्यय	50000	-45430	4570
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	35000	-35000	0
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	40000	-9790	30210
	3305000	-418451	2886549

Total Return Amount by Head Of The Department In Above Schemes -

-418451


 (डा. नरेन्द्र के.पं.सिंघ)
 मुख्य सचिव अधिकारी
 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
 (विधायी प्रकोष्ठ)
 उत्तराखण्ड शासन